



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1935 (श0)  
(सं0 पटना 140) पटना, शुक्रवार, 7 फरवरी 2014

वित्त विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी 2014

सं० एम-4-02/2006(खंड)-1309/वि०—भारत-संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :-

संक्षिप्त नाम एवं आरंभ । - (1) यह नियमावली बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2014 कही जा सकेगी ।

(2) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. नियम-271 का अंतिम वाक्य “स्वीकृति प्राधिकारी गारंटी देनेवाली एजेन्सी/संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंकेक्षित लेखा प्राप्त करेगा और उसे महालेखाकार को भेज देगा” को विलोपित किया जायेगा और विद्यमान प्रावधान खंड(क) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और उसके बाद निम्नलिखित खंड (ख), (ग), (घ), (ङ.) एवं (च) जोड़े जायेगे :-

“(ख) “सहायता अनुदान मंजूरी प्राधिकारी प्राप्तकर्ता एजेन्सी/संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंकेक्षित लेखा प्राप्त करेगा । वे उपयोगिता प्रमाण पत्र पर अंकेक्षित लेखा की प्राप्ति एवं अपने कार्यालय में उसे रखने या ग्रांटी संस्था द्वारा अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करने से छूट से संबंधित प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करेंगे । यदि ग्रांटी संस्था/एजेन्सी को अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करने से छूट दी गयी है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र पर उन लेखापुस्तों/अभिलेखों के नाम जिनकी जाँच के आधार पर प्रतिहस्ताक्षर किया जा रहा है, उल्लिखित करना अनिवार्य होगा ।

(ग) उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए BTC Form-42A विहित किया जाता है ।

(घ) BTC-42A पर प्रतिहस्ताक्षर सहायता अनुदान प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(ङ.) उपयोगिता प्रमाणपत्र सहायता अनुदान की निकासी की तिथि से 18 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा ।

(च) वित्त विभाग सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने से संबंधित प्रपत्र एवं प्रक्रिया, आवश्यकतानुसार, विहित कर सकेगा ।”

3. नियम 272 के तृतीय पाराग्राफ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :- “सभी BTC-43 विपत्रों के साथ छात्र का नाम, पिता का नाम एवं पता, वर्ग, क्रमांक, स्कीम का नाम, अवधि, छात्रवृत्ति की दर, कुल राशि का विवरण की सूची संलग्न की जायेगी ।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**संजीव हंस,**

सचिव (व्यय) ।

*The 7th February 2014*

No. M-4 02/2006(Part)-1309/F.—In exercise of the power conferred under Article 283 (2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following code to amend the Bihar Treasury Code, 2011 :-

1. *Short title and commencement.* - (1) This may be called The Bihar Treasury (Amendment) Code, 2014.

2. It shall come into force with immediate effect.

"The sanctioning authority shall obtain the utilisation certificate and audited account from the grantee agency/institution and send it to Accountant General" of Rule 271 shall be deleted and the existing provision shall be numbered as clause (a) and there after the following clauses (b),(c), (d), (e) and (f) shall be added :-

"(b) Utilization certificate and audited account from grantee institution by the grant-in-aid sanctioning authority. He mentioning the certificate regarding receipt of audited account and to keep the same in his office or certificate regarding exemption from submitting audited account by the grantee institution on the utilization certificate, shall send it to Accountant General. If Grantee institution has been exempted from submitting audited account, it will be essential to mention the name of such accounts and records, on the basis of examination of which countersignature is being made, on the utilization.

(c) Form BTC-42A is prescribed for preparing utilization certificate.

(d) Countersignature on BTC-42A shall be made by the grant-in-aid sanctioning authority or other officer authorised by him.

(e) Utilization certificate shall be submitted within 18 months from the date of release of grant-in-aid.

(f) Finance Department may prescribe forms and procedure regarding submission of utilization certificate according to requirement."

3. The 3<sup>rd</sup> paragraph of Rule 272 is substituted with the following :- "The list of statement showing name of student, name and address of father, class, Roll no., Scheme name, period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills.

By order of the Governor of Bihar,

**SANJEEV HANS,**

*Secretary (Expenditure).*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 140-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>